



Shree Guru Gobind Singh Ji Govt. College Paonta Sahib Distt. Sirmour

[Email-gcpaontasahib@gmail.com](mailto:Email-gcpaontasahib@gmail.com)

Phone no- 01704223357

## प्रेस विज्ञप्ति

27-09-2022

श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा जिला स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना प्री आरडी कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. जयचंद और प्रोफेसर नंदिनी कंवर ने बताया कि आज जिला सिरमौर के अलग-अलग महाविद्यालयों से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवियों ने भाग लिया। इस कैंप में राजकीय महाविद्यालय संगड़ाह, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, राजकीय महाविद्यालय हरिपुरधार, श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन के वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस विशेष अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद पटियाल ने जिले भर से आए सभी कार्यक्रम अधिकारियों व सभी वॉलंटियर्स का महाविद्यालय पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया साथ ही स्वयंसेवकों को समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करना के लिए प्रेरित किया। इस कैंप में छठी रिजर्व बटालियन धोलाकुआं के लांस हेड कांस्टेबल, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर, डीजीपी अवार्ड से सम्मानित प्रमोद कुमार और स्थानीय एनसीसी की छात्रा टिया ने स्वयं सेवकों की फिजिकल फिटनेस और प्रेड कौशल का बहुत ही अच्छे ढंग से मूल्यांकन किया। इसके साथ ही प्रतिभागी स्वयंसेवकों की सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के द्वारा उनकी राज्यस्तरीय आरडी कैंप के लिए चयन प्रक्रिया को निर्णायक मंडली के द्वारा तैयार किया गया। इस कैंप का उद्देश्य सर्वोत्तम दो लड़कियों और दो लड़कों का राज्यस्तरीय आरडी कैंप के लिए चयन करना था। इस प्री आरडी कैंप में निर्णायक मंडली के द्वारा लड़कों की श्रेणी में सर्वोत्तम शेखर राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ और आशिक खान राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब का चयन राज्य स्तरीय आर डी कैंप के लिए हुआ। लड़कियों की श्रेणी में अमिषा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन और सपना राजकीय महाविद्यालय संगड़ाह का चयन राज्य स्तरीय कैंप के लिए हुआ। इस विशेष अवसर पर डॉ. जयचंद एवं प्रोफेसर नंदिनी कंवर ने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा की सतत् सेवा भाव एवं कर्मठता के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और सेवा भाव का जज्बा ही उनको समाज में अलग पहचान दिलाता है। इस विशेष अवसर पर स्थानीय महाविद्यालय के अधीक्षक श्री नरेश बत्रा जी, प्रो. धनमंती कण्डासी, रीना चौहान, पुष्पा यादव, किरण बाला और संदीप शर्मा मौजूद रहे साथ ही दूसरे महाविद्यालयों



Shree Guru Gobind Singh Ji Govt. College Paonta Sahib Distt. Sirmour

[Email-gcpaontasahib@gmail.com](mailto:Email-gcpaontasahib@gmail.com)

Phone no- 01704223357

से पधारे प्रो .अजय,प्रमोद चौहान, मोनिका शर्मा और राज्य स्तरीय आरडी कैंप में भाग ले चुके सतीश कुमार भी मौजूद रहे।





Shree Guru Gobind Singh Ji Govt. College Paonta Sahib Distt. Sirmour

[Email-gcpaontasahib@gmail.com](mailto:gcpaontasahib@gmail.com)

Phone no- 01704223357





Shree Guru Gobind Singh Ji Govt. College Paonta Sahib Distt. Sirmour

[Email-gcpaontasahib@gmail.com](mailto:gcpaontasahib@gmail.com)

Phone no- 01704223357

News link

<https://dronatimes.com/2022/09/28/%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF/>